

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 जुलाई 2014—आषाढ 14, शक 1936

वित्त विभाग

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्र. 362-एफ-11-01-2012-आनीविइ-चार.—श्री ए. के. अग्रवाल, सदस्य, राज्य वित्त आयोग द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2014 को पद से त्यागपत्र दिया गया है. अतः मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 7 के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा श्री ए. के. अग्रवाल, सदस्य, राज्य वित्त आयोग, मध्यप्रदेश का त्यागपत्र दिनांक 18 फरवरी 2014, स्वीकार करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र सिंह, उपसचिव.